

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 328

No. 353]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

[N.C.T.D. No. 328

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 22/2019—राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(90)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस. VI/617.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-2018/डीएस-VI/379 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में -

(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या	म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या इसी प्रकार की	संगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति,

	म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी राइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का किसी सौंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति	सौंगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हों।
--	---	---	---

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"9क	किसी लेखक द्वारा अपने मूल साहित्यिक रचना से संबंधित किसी प्रकाशक को कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट का अंतरण करके या उसके प्रयोग की अनुमति देकर की जाने वाली सेवा की आपूर्ति	लेखक	<p>कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक:</p> <p>बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां कि,-</p> <p>(i) लेखक ने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो के समक्ष अनुबंध। में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, यह घोषणा की हो कि वह कॉलम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा।</p> <p>(ii) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म GST Inv-I में अपने द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-11 में निर्धारित घोषणा करेगा।</p>

(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"15	किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर वाहन को किराए पर प्रदान की गई सेवा	किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2.5% की दर	ऐसा कोई बॉडी कारपोरेट जो कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित

		से राज्य कर का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है।	हो।
16	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("SEBI") की सेक्युरिटीज लेंडिंग स्कीम, 1997 ("स्कीम") के अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने की सेवाएं।	लेनदार अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है।	देनदार ऐसा व्यक्ति जो इस स्कीम के अंतर्गत सेबी के द्वारा अनुमोदित किसी मध्यस्थ से प्रतिभूति को उधार लेता है।"

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

अनुबंध-1

प्रपत्र

(सारणी के क्रम संख्या 9A)

(घोषणा जिसको कि, लेखक के द्वारा, किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11.2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है।)

संदर्भ संख्या

तारीख

सेवा में,

.....

(अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है)

1. लेखक का नाम
2. लेखक का पता
3. लेखक का जीएसटीआईएन

घोषणा

1. मैंने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 9 के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने विकल्प का प्रयोग करता हूं और डीजीएसटी अधिनियम, 2017 (03 का 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार के अनुपालन करूंगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं;

2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को, एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक, कम से कम, वैध रहेगा।

हस्ताक्षर

नाम

जीएसटीआईएन

स्थान

तारीख

अनुबंध II

(घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट, 1957 की धारा 13 की उप धारा (1) के उपवाक्य (क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो।)

घोषणा

मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 में सारणी के क्रम संख्या 9क के कॉलम (2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं०फा० 03 (15)/ वित्त (राज०-1)/2017 -2018/डीएस -VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2019- राज्य कर (दर) दिनांक 31 अक्टूबर, 2019, सं०फा० 03(78)/वित्त(राज०-1)/2019-20/डीएस-VI/516 दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

No. 22/2019-State Tax (Rate)

No. F. 3(90)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/617.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.13/2017- State Tax (Rate), dated 30.06.2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* **No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379** dated 30.06.2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"9"	Supply of services by a music composer, photographer, artist or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13	Music composer, photographer, artist, or the like	Music company, producer or the like, located in the

	of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like.		taxable territory.”;
--	---	--	----------------------

- (ii) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“9A	Supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher.	Author	<p>Publisher located in the taxable territory:</p> <p>Provided that nothing contained in this entry shall apply where, -</p> <p>(i) the author has taken registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), and filed a declaration, in the form at Annexure I, within the time limit prescribed therein, with the jurisdictional CGST or SGST commissioner, as the case may be, that he exercises the option to pay state tax on the service specified in column (2), under forward charge in accordance with Section 9 (1) of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 under forward charge, and to comply with all the provisions of Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 (03 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option;</p> <p>(ii) the author makes a declaration, as prescribed in Annexure II on the invoice issued by him in Form GST Inv-I to the publisher.”;</p>

- (iii) after serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“15	Services provided by way of renting of a motor vehicle provided to a body corporate.	Any person other than a body corporate, paying State Tax at the rate of 2.5% on renting of	Any body corporate located in the taxable territory.

		motor vehicles with input tax credit only of input service in the same line of business	
16	Services of lending of securities under Securities Lending Scheme, 1997 ("Scheme") of Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), as amended.	Lender i.e. a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorised on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the Scheme of SEBI	Borrower i.e. a person who borrows the securities under the Scheme through an approved intermediary of SEBI."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

Annexure I

FORM (9A of Table)

(Declaration to be filed by an author for exercising the option to pay tax on the "supply of services by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher" under forward charge on or before 31.10.2019 for the option to be effective from 1.11.2019 *or* before the commencement of any Financial Year for the option to be effective from the commencement of that Financial Year.)

Reference No. _____

Date _____

To

(To be addressed to the jurisdictional Commissioner)

1. Name of the author:
2. Address of the author:
3. GSTIN of the author:

Declaration

1. I have taken registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), and I hereby exercise the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, supplied by me, under forward charge in accordance with section 9 (1) of DGST Act, and to comply with all the provisions of DGST Act, 2017 (03 of 2017) as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both;
2. I understand that this option, once exercised, shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and shall be valid, at least, till the end of Financial Year following the year in which it is made.

Signature _____
Name _____
GSTIN _____

Place _____
Date _____

Annexure II

(Declaration to be made in the invoice by the author exercising the option to pay tax on the “supply of service by an author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub-section (1) of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge.)

**Declaration
(9A of Table)**

I have exercised the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2) of the Table in the notification No. 13/2017-State Tax (Rate) dated 30th June, 2017 under forward charge.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note: -The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide **No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/ DS-VI/379** dated 30.06.2017 and was last amended by notification No. 5/2019 – State Tax (Rate), dated the 31st October, 2019 vide **No. F.3(78)/Fin. (Rev-I)/2019-20/DS-VI/516**, dated the 31st October, 2019.

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 23/2019—राज्य कर

सं. फा. 3(91)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस. VI/618.— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (03 का 2017) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 4/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 23 फरवरी, 2018 जिसे सं०फा०03)92/(वित्त०राज)-1)/डी/18-2017एस-VI/99 दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण.—

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो” ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव—VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 23 फरवरी, 2018 को सं०फा० 03)92/वित्त(राज)०-1/(2017-18डीएस-VI/99, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

No. 23/2019—State Tax (Rate)

No. F. 3(91)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/618.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.4/2018- State Tax (Rate), dated the 23rd February, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* **No. F.3(92)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/99** dated the 23rd February, 2018, namely:-

After paragraph, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation.-

Nothing contained in this notification shall apply with respect to the development rights supplied on or after 1st April, 2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 4/2018 - State Tax (Rate), dated the 23rd February, 2018, *vide* **No. F.3(92)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/99** dated the 23rd February, 2018.

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 24/2019—राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(92)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस.VI/619.— दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 09 की उप धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, **जीएसटी** परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 7/2019- राज्य कर (दर), दिनांक **22 अक्टूबर, 2019** जिसे सं0 फा0 03(74)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/498 दिनांक **22 अक्टूबर, 2019** के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आता है।”

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव—VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 7/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को सं0 फा0 03(74)/वित्त(राज0-1)/2019-20/डीएस-VI/498, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

No. 24/2019—State Tax (Rate)

No. F. 3(92)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/619.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I) No. 07/2019- State Tax (Rate), dated the 22nd October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV vide no. F.3(74)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/498, dated the 22nd October, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 2, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely: -

“Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note.—The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary part IV, *vide* notification No. 7/2019 - State Tax (Rate), dated the 22nd October, 2019, *vide* No.F.3(74)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/498, dated the 22nd October, 2019.

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 25/2019—राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(93)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस.VI/620.— दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 07 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथा:-

“लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितंबर, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव—VI (वित्त)

स्पष्टीकरण : यह अधिसूचना 10 मार्च, 2018 को हुई माल एवं सेवाकर परिषद की 26वीं बैठक की इस सिफारिश को लागू करने के लिए जारी किया जा रहा है कि मानव के द्वारा सेवन किए जाने वाले अल्कोहल युक्त शराब पर भुगतान किए जाने वाले किसी लाईसेंस शुल्क, आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो, पर कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगी।

NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

No. 25/2019–State Tax (Rate)

No. F. 3(93)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/620.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the State Governments in which they are engaged as public authorities, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

“Service by way of grant of alcoholic liquor licence, against consideration in the form of licence fee or application fee or by whatever name it is called.”

2. This notification shall come into force on the 30th September, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Explanation : This notification is being issued to implement the recommendation of the 26th Goods and Services Tax council meeting held on the 10th March, 2018 that no GST shall be leviable on licence fee and application fee, by whatever name it is called, payable for alcoholic liquor for human consumption.